

प्रेषक,

डॉ० नरेन्द्र के० पन्त,
मुख्य विधि आलेख अधिकारी/
आहरण वितरण अधिकारी,
उत्तराखण्ड राज्य विधि आयोग।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
विधायी एवं संसदीय कार्य,
विभागाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड राज्य विधि आयोग।

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधायी प्रकोष्ठ)

देहरादून: दिनांक: 28 मार्च, 2014

विषय: वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए आवंटित बजट के सापेक्ष अवशेष अन्तिम बचत का समर्पण किया जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषयक विधायी एवं संसदीय कार्य, विधायी प्रकोष्ठ के पत्रांक 35/XXXVI(3)/विधायी प्रकोष्ठ/2013-14 दिनांक 23 मई, 2013 एवं पत्रांक 61/XXXVI(3)/विधायी प्रकोष्ठ/2013-14 दिनांक 14 जून, 2013 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करे। उक्त पत्रों के माध्यम से आपके द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए अनुदान संख्या-07 लेखाशीर्षक-2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-00-आयोजनेत्तर-090-सचिवालय-15-राज्य विधि आयोग के अन्तर्गत भिन्न भिन्न मानक मदों में क्रमशः ₹5,59,000.00 मात्र एवं ₹1,00,000.00 मात्र कुल ₹6,59,000.00 मात्र (₹ छः लाख उनसठ हजार मात्र) का आय-व्ययक अधोहस्ताक्षरी को आवंटित किया गया था।

02. उक्तवत् आवंटित कुल आय-व्ययक ₹6,59,000.00 मात्र (₹ छः लाख उनसठ हजार मात्र) के सापेक्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में उक्त अनुदान एवं लेखाशीर्षक के अन्तर्गत भिन्न भिन्न मानक मदों में कुल ₹4,19,819.00 मात्र (₹ चार लाख उन्नीस हजार आठ सौ उन्नीस मात्र) की धनराशि का आहरण कर व्यय किया गया है तथा ₹2,39,181.00 मात्र (₹ दो लाख उनतालीस हजार एक सौ इक्यासी मात्र) का आय-व्ययक वर्तमान में शेष है।

03. चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में शेष उपलब्ध अन्तिम बचत की कुल धनराशि ₹2,39,181.00 मात्र (₹ दो लाख उनतालीस हजार एक सौ इक्यासी मात्र) की धनराशि ऑन लाईन ईकोष की बेबसाइड के माध्यम से प्राप्त अलोटमेंट आईडी HS140301850 दिनांक 27 मार्च, 2014 (संलग्न) के अनुसार पुनर्ग्रहण हेतु आपको समर्पित/वापस की जाती है।



04. चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 मे उत्तराखण्ड राज्य विधि आयोग के अन्तर्गत मानक मदवार वास्तविक व्यय एवं बचतों का विवरण संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने कष्ट करे।

संलग्न-यथोपरि

भवदीय,

(डॉ० नरेन्द्र के० पन्त)
आहरण वितरण अधिकारी/
मुख्य विधि आलेख अधिकारी।

संख्या 288 / XXXVI(3) / विधायी प्रकोष्ठ / 2013-14 / दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
02. वित्त अधिकारी, केन्द्रीय भुगतान एवं लेखा कार्यालय, साईबर ट्रेजरी, डालनवाला, देहरादून।
03. वित्त अनुभाग 05, उत्तराखण्ड शासन।
04. एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, शुभाष रोड, देहरादून।
05. विभागीय आदेश पुस्तिका।

(डॉ० नरेन्द्र के० पन्त)
आहरण वितरण अधिकारी/
मुख्य विधि आलेख अधिकारी।

बजट समर्पण वित्तीय वर्ष - 20132014

DDO Name - Chief Legal Drafting Officer Dehradun (4664)

आवंटन पत्र संख्या - 288/XXXVI(3)/V.P./2013-14

अलोटमेंट आई डी - HS140301850

अनुदान संख्या - 007

Treasury - Cpao (1200)

आवंटन पत्र दिनांक - 27-Mar-2014

1: लेखा शीर्षक	2052 - सचिवालय-सामान्य सेवायें	00 -
	090 - सचिवालय	15 - राज्य विधि आयोग
	00 - राज्य विधि आयोग	

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
01 - वेतन	40000	0	40000
03 - महंगाई भत्ता	95000	-18200	76800
04 - यात्रा व्यय	30000	-30000	0
06 - अन्य भत्ते	60000	-12500	47500
07 - मानदेय	80000	0	80000
08 - कार्यालय व्यय	50000	-23436	26564
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छ	5000	-5000	0
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1000	-1000	0
13 - टेलीफोन पर व्यय	10000	-3619	6381
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेटो	50000	-25672	24328
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं	100000	-28674	71326
17 - किराया, उपशल्क और कर-म्वा	20000	0	20000
18 - प्रकाशन	1000	-1000	0
19 - विज्ञापन, चिक्री और विख्यापन	1000	-1000	0
22 - आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता आ	5000	-5000	0
26 - मशीनें और मज्जा /उपकरण औ	10000	-10000	0
27 - चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	50000	-50000	0
29 - अनुरक्षण	10000	-10000	0
42 - अन्य व्यय	30000	-3080	26920
46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर	1000	-1000	0
47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी	10000	-10000	0
	659000	-239181	419819

Total Surrender By DDO In Above Schemes -

-239181

नोट :- बजट समर्पण की मूल प्रतिलिपि कोषाधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

20/3/2014
 (डा. नरेन्द्र कोपल)
 मुख्य विधि आलेख अधिकारी
 विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग
 (विधायी प्रकोष्ठ)
 उत्तराखण्ड शासन